



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2401]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 24, 2010/अग्रहायण 3, 1932

No. 2401]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 24, 2010/AGRAHAYANA 3, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2010

का.आ. 2835(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 955(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2010 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के छिन्दवाड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) के छिन्दवाड़ा बाइपास सेक्शन के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 8 जुलाई, 2010 को "नवभारत" और तारीख 9 जुलाई, 2010 को "दैनिक भास्कर" में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची								
मध्यप्रदेश राज्य के छिन्दवाड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 26(ख) के छिन्दवाड़ा बायपास खंड तक के लिये की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।								
क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	छिन्दवाड़ा	1.छिन्दवाड़ा	(1)सारना	361/1	निजी	असिंचित	0.020	निर्मला पत्नि रामकुमार ठाकुर
				362/1	निजी	असिंचित	0.190	निर्मला पत्नि रामकुमार ठाकुर
				364/1	निजी	असिंचित	0.220	धनीराम पिता हरिचंद
				364/2	निजी	असिंचित	0.060	अशोक कुमार पिता प्रेमदास साहू
				364/3	निजी	सिंचित	0.190	धनीराम पिता हरचंद भरिया
				364/4	निजी	असिंचित	0.130	छिदामी पिता हरचंद भरिया
				364/5	निजी	असिंचित	0.160	हरिचंद पिता खेमा भरिया
				364/6	निजी	असिंचित	0.100	छिदामी पिता हरचंद भरिया
				365	निजी	असिंचित	0.060	चैतूसिंग पिता टेकू भरिया
				385/1	निजी	सिंचित	0.510	परसराम पिता खेमचंद तेली
				385/2	निजी	सिंचित	0.140	परसराम पिता खेमचंद तेली
				387	निजी	सिंचित	0.080	निलेश पिता अमृतलाल शाह, संदीप पिता बलभद्री भाई शाह, राकेश पिता शंभूदयाल, नंदकिशोर पिता खड़गसिंह साहू
				393	निजी	सिंचित	0.240	प्रदीप, दिलीप पिता ताराचंद श्रीमति लक्ष्मनिया विधवा ताराचंद मरार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				394	निजी	सिंचित	0.290	प्रदीप, दिलीप पिता ताराचंद श्रीमति लक्ष्मनिया विधवा ताराचंद मरार
				395	निजी	सिंचित	0.050	प्रदीप, दिलीप पिता ताराचंद श्रीमति लक्ष्मनिया विधवा ताराचंद मरार
				396	निजी	सिंचित	0.760	श्यामकुमार पिता टेकचंद मरार
				421/2	निजी	सिंचित	0.020	महेश कुमार पिता भदुआ मरार
				422	निजी	सिंचित	0.520	मंहगी विधवा सुक्कु, सन्तराम, रवि पिता कपसलाल मु. कुसुमा विधवा कपसलाल चमार
				423	निजी	सिंचित	0.560	मंहगी विधवा सुक्कु, सन्तराम, रवि पिता कपसलाल मु. कुसुमा विधवा कपसलाल चमार
				426/1	निजी	सिंचित	0.010	रामकरन पिता सरवन गोंड
				428	निजी	सिंचित	0.080	रामकरन पिता सरवन, खेमकरन पिता सरवन गोंड
				429/1	निजी	सिंचित	0.020	रामकरन पिता सरवन गोंड
				429/2	निजी	सिंचित	0.150	खेमकरन पिता सरवन गोंड

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				430	निजी	असिंचित	0.012	दीपक पिता अमीरसिंह, ज्ञानवती विधवा राजकुमार, सुधीर, प्रवीण पुत्रगण, राजकुमार, प्रमीला पुत्री राजकुमार, अंगदसिंह, मनीस, संजू पिता संतोषकुमार, विनीता, अनीता पुत्रियां संतोषकुमार, शारदा बाई विधवा संतोषकुमार रघुवंशी
				431/1	निजी	सिंचित	0.670	श्रीमति पूनम बाई पति कमलसिंग गोंड
				436	निजी	सिंचित	0.004	श्रीमति पूनम बाई पति कमलसिंग गोंड
				437	निजी	सिंचित	0.750	प्रदीप, दिलीप पिता ताराचंद श्रीमति लक्ष्मनिया विधवा ताराचंद मरार
				462/1	निजी	सिंचित	0.810	दीपक पिता अमीरसिंह रघुवंशी
				462/2	निजी	सिंचित	0.360	सुकिया विधवा शंकर, सालकराम, तुकाराम पिता शंकर, कुसुम, हिम्मी, अनीता पुत्रियां शंकर धोबी
				462/5	निजी	सिंचित	0.300	बलकरन पिता बुधेलाल चमार
				463	निजी	सिंचित	0.310	सुकिया विधवा शंकर, सालकराम, तुकाराम पिता शंकर, कुसुम, हिम्मी, अनीता पुत्रियां शंकर धोबी
				494	निजी	सिंचित	0.280	दीपक पिता अमरसिंह रघुवंशी
				496/1	निजी	सिंचित	0.010	निरपतसिंग पिता बब्बू रघुवंशी
				496/2	निजी	सिंचित	0.230	धरमसिंग पिता बब्बू रघुवंशी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				496/3	निजी	सिंचित	0.530	रूपाबाई विधवा पदमलिंग रघुवंशी
				242	शासकीय	नाला	0.100	म०प्र० शासन
				245	शासकीय	रास्ता	0.110	म०प्र० शासन
				341	शासकीय	रास्ता	0.050	म०प्र० शासन
				460	शासकीय	नाला	0.050	म०प्र० शासन
				483	शासकीय	रास्ता	0.020	म०प्र० शासन
			(2)अतरवाड़ा	23/4	निजी	सिंचित	0.030	श्रीराम पिता नवलसिंह अहीर
				23/8	निजी	सिंचित	0.160	
				23/1	निजी	सिंचित	0.240	हरलाल, हनूलाल, धनलाल, धनश्याम, रघुवीर, राजेन्द्र पिता खूबचंद, रूपवती बेवा खूबचंद, दिजिया, झीनी, गुड़डो पिता खूबचंद यादव
				23/6	निजी	सिंचित	0.230	रूपवती बेवा खूबचंद यादव
				23/9	निजी	सिंचित	0.020	रघुनन्दन पिता हेतराम, प्रहलाद पिता सोहन यादव
				25/1	निजी	सिंचित	1.000	मजरउल, अकबर खां, इजहर खां पिता अकरमअलीखां, खालीदा अखतर, अजीत, नेयर, तनवीर पिता अकरमअली मुसलमान
				25/2	निजी	सिंचित	0.470	इसरार अहमद पिता असलम अली मुसलमान
				59	निजी	सिंचित	0.080	मजरउल, अकबर खां, इजहर खां पिता अकरमअलीखां, खालीदा अखतर, अजीत, नेयर, तनवीर पिता अकरमअली मुसलमान
				60	निजी	सिंचित	0.350	विमला पिता गोविंदराम गोंड

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				64	निजी	सिंचित	0.430	मंगलू सदरलाल पिता मानक, झूलसो विधवा जंगलू मताराम, दूदू पिता जंगलू श्यामा, रामकली, चैती, सुशीला पिता जंगलू अ.पा. मां झुलमो गोड
				69/1	निजी	सिंचित	0.140	हीरालाल पिता उदे गौली
				69/2	निजी	सिंचित	0.130	भोजेलाल पिता उदे गौली
				70/1	निजी	सिंचित	0.050	शेख अजीत पिता शेख मजीतखां, खुरशीद बानो, घसीटी पिता शेख मजीतखां मुसलमान
				276/3	निजी	सिंचित	0.750	हीरालाल पिता उदे गौली
				276/5, 276/6	निजी	सिंचित	0.675	जयकुमारी पति रघुरामसिंह रघुवंशी
				296	निजी	सिंचित	0.110	तुलसीराम पिता अबीरचंद गौली
				297	निजी	सिंचित	0.110	नान्हो पिता झुला गौली
				298	निजी	सिंचित	0.110	फत्तेलाल पिता अबीरचंद गौली
				299	निजी	सिंचित	0.120	दरेश पिता देवचंद गौली
				300/2	निजी	सिंचित	0.330	तुलसीराम पिता अबीरचंद गौली
				301	निजी	सिंचित	0.610	हरिराम, काशीराम पिता हुकुम, नैनवती, काशीवती पिता हुकुम गौली
				302/2	निजी	सिंचित	0.050	कबूदरी बाई पति कल्लोराम गौली
				304/1	निजी	सिंचित	0.110	फत्तेलाल पिता अबीरचंद गौली
				320/4	निजी	सिंचित	0.320	प्रमीला पति पी.डी. चांडक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				320/3	निजी	सिंचित	0.640	रामजी पिता शोभराम, लीला पति शोभराम कलार
				320/5	निजी	सिंचित	0.270	मलूकचंद पिता प्रीतम कलार
				20	शासकीय	पहाड़	0.410	म0प्र0 शासन
				21	शासकीय	चरनोई	0.280	म0प्र0 शासन
				26/2, 23/5, 25/3	शासकीय	नहर	0.180	म0प्र0 शासन
				34	शासकीय	रास्ता	0.035	म0प्र0 शासन
				46/2	शासकीय	रास्ता	0.080	म0प्र0 शासन
				61	शासकीय	चरनोई	0.090	म0प्र0 शासन
				63	शासकीय	रास्ता	0.210	म0प्र0 शासन
				65	शासकीय	नहर	0.080	म0प्र0 शासन
				66	शासकीय	चरनोई	0.050	म0प्र0 शासन
				270/1-3	शासकीय	चरनोई	0.070	म0प्र0 शासन
				277	शासकीय	चरनोई	0.170	म0प्र0 शासन
				284	शासकीय	नहर	0.060	म0प्र0 शासन
				323/2	शासकीय	रास्ता	0.170	म0प्र0 शासन
			(3)मालहनवाड़ा	14/1	निजी	असिंचित	0.500	श्रीमति रतनिया बाई पति भददू कलार
				22/1	निजी	सिंचित	0.330	समनी विधवा झीटूलाल, कृष्णा बाई, आशाबाई पिता झीटूलाल अहीर
				23	निजी	सिंचित	0.385	रतन पिता बसोड़ी भरिया
				24/1	निजी	असिंचित	0.090	कमलेश अ. पिता ओमकार, ओमकार पिता भादू कलार
				24/2	निजी	असिंचित	0.090	कन्हैया पिता सुखराम अहीर
				24/3	निजी	असिंचित	0.120	ओमकार पिता भददू कलार
				26	निजी	सिंचित	0.020	रतन पिता बसोड़ी भरिया
				31	निजी	असिंचित	0.364	आनन्द कुमार पिता नवलकिशोर राठी
				39/1	निजी	असिंचित	0.080	पूनाराम पिता गनेश कलार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				39/2	निजी	सिंचित	0.089	श्रीराम पिता गनेश
				39/4	निजी	सिंचित	0.295	कलार
				39/3	निजी	सिंचित	0.032	दीनदयाल पिता गनेश
				39/11	निजी	सिंचित	0.185	कलार
				39/7	निजी	सिंचित	0.222	सोमवती बाई पति
								पूनाराम कलार
				39/9	निजी	सिंचित	0.180	पूनाराम पिता गनेश
								कलार
				40	निजी	असिंचित	0.120	छितिया, सुधिया विधवा इनकू, सुखदेव, सहदेव, जयदेव, बलदेव पिता इनकू, सरजा, चिलेम, गायत्री, रुखसाना, पिता इनकू अहीर
				41	निजी	असिंचित	0.400	भुरिया विधवा अनकू, सन्तो, मन्सो पिता अन्तू भरिया
				51	निजी	असिंचित	0.050	जगदीश पिता सेवकराम माहारे
				52	निजी	असिंचित	0.170	छितिया, सुधिया विधवा इनकू, सुखदेव, सहदेव, जयदेव, बलदेव पिता इनकू, सरजा, चिलेम, गायत्री, रुखसाना, पिता इनकू अहीर
				56/1	निजी	सिंचित	0.101	अजबसिंग, जयसिंग, स्वरूपसिंग, केवलसिंग पिता मिट्टू श्रीमति दुलिया विधवा मिट्टू, सुखी विधवा दुबे अहीर
				56/2	निजी	असिंचित	0.270	दिलीप कुमार पिता सेवकराम कलार
				61	निजी	असिंचित	0.425	सुखलाल पिता सुमेरा, कचरा, कूरा पिता फत्ते अहीर



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				269/1	निजी	असिंचित	0.200	स्वरूप, सतीश ना.बा. पिता लक्ष्मण, स्वरूपा ना.बा. पिता लक्ष्मण पालक दादा मेहतर पिता मुन्नीलाल भरिया
				274/1	निजी	असिंचित	0.100	इंदरवती विधवा झीनो, मुरारी, असाडू, संतोष पिता झीनो, सुमित्रा पिता झीनो, रामदयाल, दीनदयाल, भोजे पिता पिरमू
				274/2	निजी	असिंचित	0.180	रामदयाल पिता पिरमू गुडेश अहीर
				274/3	निजी	असिंचित	0.270	दीनदयाल पिता पिरमू
				274/4	निजी	असिंचित	0.330	भोजेलाल पिता पिरमू गुडेश अहीर
				278/1	निजी	असिंचित	0.250	इंदरवती विधवा झीनो, मुरारी, असाडू, संतोष पिता झीनो, सुमित्रा पिता झीनो, रामदयाल, दीनदयाल, भोजे पिता पिरमू
				279/1	निजी	असिंचित	0.110	डिमाक पिता हिम्मत कलार
				280/1	निजी	सिंचित	0.300	रघुवीर पिता बोहना गोंड
				280/2	निजी	सिंचित	0.250	करिया पिता मयाराम गोंड
				283	निजी	सिंचित	0.080	सियाबाई पिता चतरलाल
				320	निजी	सिंचित	0.800	फूलचंद, मूलचंद, नन्हेलाल, चरणलाल पिता खिम्मन अहीर
				321	निजी	सिंचित	0.140	फूलचंद, मूलचंद, नन्हेलाल, चरणलाल पिता खिम्मन अहीर
				322/1	शासकीय	पहाड़ चट्टान	0.250	म0प्र0 शासन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				322/2	शासकीय	पहाड़ चट्टान	0.100	म०प्र० शासन
				323/1	निजी	सिंचित	0.500	भानुबाई बेवा शेखलाल गोंड
				323/2	निजी	असिंचित	0.060	रिवानसा पिता शेखलाल गोंड
				323/3	निजी	असिंचित	0.100	रामसा पिता शेखलाल गोंड
				323/4	निजी	असिंचित	0.030	बलवानसा पिता शेखलाल गोंड
				327/2	निजी	सिंचित	0.370	डिमाकचंद पिता दीनदयाल कलार
				327/3	निजी	सिंचित	0.460	अनेकवति विधवा पूनाराम, चंपालाल पिता पूनाराम, दुलारी, गायत्री पिता पूनाराम, मोहनिया विधवा पहलवान, संतोष, दीपक पिता पहलवान, सरला, सुनीता पिता पहलवान, संतकली, रेवती बाई पिता भुवनलाल, टेकचंद पिता भुवनलाल कलार
				330	निजी	सिंचित	1.000	झमक पिता सुरेसिंह मु. दुल्ली विधवा सुरेसिंह गोंड
				331/2	निजी	असिंचित	0.230	महेश पिता बालकिशन अहीर
				331/3	निजी	असिंचित	0.040	राजकुमार, गुड्डा पिता रघुनाथ मेहरा
				25	शासकीय	रास्ता	0.070	म०प्र० शासन
				29	शासकीय	चरन	0.243	म०प्र० शासन
				33	शासकीय	रास्ता	0.050	म०प्र० शासन
				83	शासकीय	चरनोई	0.070	म०प्र० शासन
				281	शासकीय	पहाड़	1.060	म०प्र० शासन
				285	शासकीय	नाला	0.030	म०प्र० शासन
				331/1	शासकीय	पहाड़	0.100	म०प्र० शासन
				360	शासकीय	रास्ता	0.010	म०प्र० शासन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(4)मानेगाँव	340	निजी	असिंचित	0.075	मुरलीमनोहर पिता रामेश्वरदयाल वर्मा (शासकीय पट्टेदार भूमि अहस्तरणीय)
				341/1	निजी	असिंचित	0.170	नरेश, रवि, संजय पिता बलराम, रामप्यारी विधवा बलराम, बलदेव पिता गरजन तानीबाई, ब्रजवति, अनसवती, देवीबाई, सिरनवती पिता गरजन, नुखिया विधवा गरजन
				341/2	निजी	असिंचित	0.175	रामदास पिता सिरजू गोंड
				341/3	निजी	असिंचित	0.200	सुरजन पिता जेठू गोंड
				341/4	निजी	असिंचित	0.175	अधार, अदलू, पिता दुर्जन गोंड
				342	निजी	असिंचित	0.693	झाड़ूलाल पिता बिसन गोंड
				343	निजी	असिंचित	0.085	मुरलीमनोहर पिता रामेश्वरदयाल वर्मा (शासकीय पट्टेदार भूमि अहस्तरणीय)
				344/1	निजी	सिंचित	0.420	मिठानिया विधवा भददू, पूसू, रामसिंग पिता भददू, समानिया, रमपतिया पिता भददू
				344/2	निजी	सिंचित	0.550	पारवती, रामकली विधवाएं भागलाल, बिसराम, दूबेलाल, रूपलाल पिता भागलाल, सिपतिया, दूपवती पिता भगवान गोंड
		(2) मोहखेड़	(1)सालीमेटा	1/1	निजी	सिंचित	0.140	नारायण पुत्र भोंदू कुन्बी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2/1	निजी	सिंचित	0.500	सोना विधवा पिलाजी, प्रभाकर, दिवाकर पुत्रगण श्यामराव, सविता, रेखा पुत्रियां श्यामराव, सुमन विधवा श्यामराव, सुशीला, चन्द्रा, सत्यभामा, कंचना, नीतू ना.बा. पुत्रियां फजीत, तुलसी, निलेश ना.बा. पुत्रगण फजीत, पालक आजी, सोना, सिरपत, बाबूराव पुत्रगण, नत्थन, यमुना, अंजी, कोसा, रेशमी, सेवंती पुत्रियां आडया, शकुन विधवा गणपत महार
				3/1	निजी	सिंचित	0.150	कृष्णराव पुत्र गंगाजी कुन्बी
				3/2	निजी	असिंचित	0.010	मारोतीराव पिता गंगाजी कुन्बी
				11/1	निजी	सिंचित	1.300	बाबूराव पुत्र भैयाजी कुन्बी
				13/1	निजी	सिंचित	0.090	शेषराव पिता प्रहलाद कुन्बी
				13/2	निजी	सिंचित	0.650	भैयाजी पुत्र गामाजी कुन्बी
				15/1	निजी	असिंचित	0.260	अनुबाई विधवा श्यामराव, लक्खू पिता श्यामराव, संध्या पुत्री श्यामराव
				15/2	निजी	असिंचित	0.180	बल्लू पुत्र श्यामराव, अनु विधवा श्यामराव, संध्या पुत्री श्यामराव कुन्बी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				30	निजी	असिंचित	0.090	कासु पति बाबूराव कुन्बी
				31	निजी	सिंचित	0.470	कासु पति बाबूराव कुन्बी
				61	निजी	सिंचित	0.220	गुलाबराव पुत्र मारोती कुन्बी
				64	निजी	असिंचित	0.040	गोविन्दराव, गुलाबराव पिता चेपा कुन्बी
				68	निजी	असिंचित	0.130	गोविन्दराव, गुलाबराव पिता चेपा कुन्बी
				69	निजी	सिंचित	0.830	गोविन्दराव, गुलाबराव पिता चेपा कुन्बी
				115/1	निजी	सिंचित	0.250	कुसुम पति पंजाबराव कुन्बी
				115/3	निजी	सिंचित	0.280	अजाबराव पुत्र भाऊजी कुन्बी
				151	निजी	असिंचित	0.210	शेषराव, श्यामराव, रत्नाकर, कमलाकर पुत्रगण दौलत, आशी विधवा दौलत कुन्बी
				152	निजी	सिंचित	0.320	नीड़ा पुत्र जगन्नाथ कुन्बी
				153/1	निजी	सिंचित	0.050	कुण्डलीक, दीना पिता मारोतीराव, सरला, कुसुम विधवाएं नामदेव, अशोक, राजू, मनोज पिता नामदेव, नितिन ना.बा. पुत्र नामदेव, मन्नू, नीलू ना.बा. पुत्रियां नामदेव पालक मां कुन्बी
				155	निजी	सिंचित	0.350	
				153/2	निजी	सिंचित	0.480	जगदीश पुत्र गामाजी कुन्बी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				154	निजी	सिंचित	0.250	शेषराव, श्यामराव, रत्नाकर, कमलाकर पुत्रगण दौलत, आशी विधवा दौलत कुन्बी
				156	निजी	सिंचित	0.280	रामजी, बाबूराव पिता अमृत्या कुन्बी
				157	निजी	सिंचित	0.350	गुलाबराव पुत्र मारोती कुन्बी
				158/1	निजी	सिंचित	0.100	महोदव पुत्र नागोराव कुन्बी
				159/1,2	निजी	सिंचित	0.304	भाऊराव पुत्र दिन्याजी कुन्बी
				185/1	निजी	सिंचित	0.510	लक्ष्मण, बाबू पिता मनाजी कुन्बी
				185/2	निजी	सिंचित	0.060	जगन्नाथ पिता इठोबा कुन्बी
				186/1	निजी	सिंचित	0.280	बाबूराव पुत्र बाजेराव कुन्बी
				186/2	निजी	सिंचित	0.750	हीराजी पुत्र बाजेराव कुन्बी
				187/1	निजी	सिंचित	0.680	मधुकर पुत्र रघुनाथ कुन्बी
				187/5	निजी	असिंचित	0.080	अलका पति मारोती कुन्बी
				189/2	निजी	असिंचित	0.050	मुकेश पुत्र गंगाजी कुन्बी
				72	निजी	असिंचित	0.030	गुलाबराव पुत्र मारोतीराव कुन्बी
				2/2	शासकीय	नहर	0.020	म0प्र0 शासन
				11/2, 11/3	शासकीय	नहर	0.200	म0प्र0 शासन
				14	शासकीय	पहाड़	0.340	म0प्र0 शासन
				25	शासकीय	रास्ता	0.060	म0प्र0 शासन
				60	शासकीय	रास्ता	0.040	म0प्र0 शासन
				62	शासकीय	बड़े झाड़ का जंगल	0.230	म0प्र0 शासन
				63	शासकीय	बड़े झाड़ का जंगल	0.016	म0प्र0 शासन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				66	शासकीय	बड़े झाड़ का जंगल	0.030	म०प्र० शासन
				112	शासकीय	बड़े झाड़ का जंगल	0.065	म०प्र० शासन
				113	शासकीय	बड़े झाड़ का जंगल	0.030	म०प्र० शासन
				114	शासकीय	बड़े झाड़ का जंगल	0.016	म०प्र० शासन
				159/3	शासकीय	नहर	0.030	म०प्र० शासन
			(2)खुनाशिर कला	1	निजी	सिंचित	0.015	कोडया पिता मियन, कान्ता पुत्री मियन महार
				8	निजी	असिंचित	0.060	कोडया पिता मियन, कान्ता पुत्री मियन महार
				9	निजी	असिंचित	0.001	अम्बिका, पत्नि सकाराम गोंड
				10	निजी	असिंचित	0.280	अम्बिका, पत्नि सकाराम गोंड
				11	निजी	सिंचित	0.060	शांताबाई पति सुखदेव महार
				12	निजी	सिंचित	0.010	झिमिया विधवा विपतलाल, जयदेव, राजकुमार पिता विपतलाल
				15/1,2	निजी	सिंचित	0.170	मान्ताबाई पति सुखदेव महार, महादेव पिता किशन महार
				16	निजी	सिंचित	0.260	तुलसी पिता परसादी महार
				17/1	निजी	असिंचित	0.065	झिमिया विधवा विपतलाल, जयदेव, राजकुमार पिता विपतलाल
				19	निजी	असिंचित	0.080	राजेश पिता कोडयाजी महार, जमनाबाई पति चेपाजी कुन्बी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				44	निजी	सिंचित	0.050	कोडया पिता मियन, कान्ता पुत्री मियन
				45/1,2	निजी	असिंचित	0.120	कुसुमलता पति डी.के. पाण्डे
				46	निजी	असिंचित	0.050	कुसुमलता पति डी.के. पाण्डे
				47/1	निजी	सिंचित	0.170	गनपत पिता तुकाराम कुन्बी
				47/2	निजी	सिंचित	0.130	सुशीला विधवा आनन्दराव, मनोहर, मुकिन्द ना0बा0 पिता आनन्दराव, दुरगा नाबालिग पिता आनन्दराव पालक मां सुशीला
				48	निजी	असिंचित	0.270	कुसुमलता पति डी.के. पाण्डे
				49	निजी	असिंचित	0.040	कुसुमलता पति डी.के. पाण्डे
				50/1	निजी	सिंचित	0.040	चेपा पिता नवलू कुन्बी
				61	निजी	असिंचित	0.650	कुसुमलता पति डी.के.
				65/1	निजी	असिंचित	0.100	गोविन्दराव पिता इठोवा कुन्बी
				65/2	निजी	असिंचित	0.165	निरूपमा पति शिशिर चांदेकर
				65/3	निजी	असिंचित	0.150	निरूपमा पति शिशिर चांदेकर
				69/2	निजी	असिंचित	0.080	धनलाल पिता रामा, शेखर पिता दूबेलाल गोंड
				178	निजी	सिंचित	0.065	श्यामराव पिता हीराजी
				179/1,2,3	निजी	सिंचित	0.385	बाबूराव पिता हीराजी, श्यामराव पिता हीराजी



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				180/1	निजी	सिंचित	0.100	जानकीबाई विधवा पंढरी, शेषराव, अजाबराव, शंकरराव पुत्रगण पंढरी, कमला, कुसुम, कौसूबाई पुत्री पंढरी कुन्बी
				180/2	निजी	सिंचित	0.085	शेषराव पिता पंढरी कुन्बी
				180/3	निजी	सिंचित	0.020	कुलदीप ना0बा0, बली पिता शेषराव कराडे
				181/1	निजी	असिंचित	0.081	बाबूराव पिता हीराजी श्यामराव पिता हीराजी
				181/2	निजी	असिंचित	0.020	मुक्ताबाई पति जयदेव कुन्बी
				182	निजी	असिंचित	0.050	सकरमंद, जयदेव पुत्रगण बारक्या, नरबद पुत्री बारक्या, बाबूराव, श्यामराव पुत्रगण हीराजी, शेषराव, अजाबराव, शंकरराव पुत्रगण पंढरी, कमला, कुसुम, कौशु पुत्रियां पंढरी, जानकी विधवा पंढरी
				191/1,2	निजी	असिंचित	0.015	कोहलूसिंग पिता मौजी, सकरो विधवा मौजी, शिवराम पिता मौजी, सकरो पिता मौजी गोंड
				192	निजी	असिंचित	0.040	कुण्डलिक पिता बुध्याजी, प्रमाकर, दिवाकर ना0बा0 पिता व पालक कुडलिक कुन्बी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				193	निजी	असिंचित	0.060	गोविन्द, जानराव, भाउराव पुत्रगण इठोबा, द्रुपत विधवा इठोबा कुन्बी
				195	निजी	असिंचित	0.035	लक्ष्मण, नामदेव, सुखदेव, हेमन्त, दौलत, रामू पुत्रगण जागो, सुमन पुत्री जागो कुन्बी
				196/1	निजी	असिंचित	0.038	गनपत पिता तुकाराम कुन्बी
				196/2	निजी	असिंचित	0.030	सुशीला विधवा आनन्दराव, मनोहर, मुकिन्द ना०बा० पिता आनन्दराव, दुरगा नाबालिग पिता आनन्दराव पालक मां सुशीला विधवा आनन्दराव
				197	निजी	असिंचित	0.040	बकाराम पिता सदाशिव कुन्बी
				198	निजी	सिंचित	0.525	नागोराव, नामदेव पिता बकाराम कुन्बी
				200/1	निजी	सिंचित	0.010	गनपत पिता तुकाराम कुन्बी
				200/2	निजी	सिंचित	0.140	सुशीला विधवा आनन्दराव, मनोहर, मुकिन्द ना०बा० पिता आनन्दराव, दुरगा नाबालिग पिता आनन्दराव पालक मां सुशीला विधवा आनन्दराव
				201/1	निजी	सिंचित	0.150	कुण्डलीक पिता बुध्याजी कुन्बी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				201/2	निजी	सिंचित	0.120	प्रभाकर, दिवाकर ना0बा0 पुत्रगण कुण्डलिक पालक पिता कुण्डलिक कुन्बी
				201/3	निजी	सिंचित	0.135	कौशल्या विधवा नारायण, रामेश्वर, सुरेश पुत्रगण नारायण कुन्बी
				202	निजी	सिंचित	0.020	राजू, किरेश पुत्रगण इठाबा महार
				272/5	निजी	असिंचित	0.010	हेमन्त पिता जागो
				272/6	निजी	असिंचित	0.060	नामा पिता जागो
				273/1	निजी	असिंचित	0.450	ईठाबाई विधवा खंडेराव, नामदेव, जयदेव, दिलीप पुत्रगण खंडेराव, कौशल्या, सेवन्ती, ज्योति पुत्रियां खंडेराव
				273/2	निजी	असिंचित	0.200	दौलत रामराव पुत्रगण जागोजी कुन्बी
				273/3	निजी	असिंचित	0.010	विनायक, कमलेश्वर, राजेश पुत्रगण गडीराम, गंगाबाई विधवा गडीराम कुन्बी
				275	निजी	असिंचित	0.170	यशलाल, कौदूलाल, येशुलाल पुत्रगण रामलाल, रामप्रसाद, रामदा, श्यामजी, दामु पुत्रगण अमरलाल, अम्मो विधवा अमरलाल गोंड
				277	निजी	सिंचित	0.430	गंगा पति गडीराम कुन्बी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				278	निजी	असिंचित	0.100	शनीलाल पिता बीरन, रमेशी विधवा बीरन गोंड
				279	निजी	असिंचित	0.240	शनीलाल पिता बीरन, रमेशी विधवा बीरन गोंड
				280	निजी	असिंचित	0.005	शनीलाल पिता बीरन, रमेशी विधवा बीरन गोंड
				283/1	निजी	असिंचित	0.140	मंगला पिता चैतु, भगोसी विधवा चैतु गोंड
				283/2	निजी	असिंचित	0.060	हिरिया पति प्रेमलाल गोंड
				299/3	निजी	असिंचित	0.050	मनकू पिता रूपचंद अहीर
				308/2	निजी	सिंचित	0.120	देवराव पिता हरि
				309/1	निजी	सिंचित	0.600	दुलारी बाई पति मेहतु चमार
				309/2	निजी	सिंचित	0.260	महतू पिता सूखा चमार
				312/2	निजी	असिंचित	0.010	महतू पिता सूखा चमार
				313	निजी	सिंचित	0.470	गणपति पति हरी, देवराव पिता हरी कुन्बी
				314	निजी	सिंचित	0.010	गणपति पति हरी कुन्बी
				325/1	निजी	सिंचित	0.180	गौरी विधवा सूतेलाल
				325/15	निजी	सिंचित	0.070	रामा पिता सूतेलाल गौली
				326	निजी	सिंचित	0.050	कृष्णकुमार पिता माखनलाल गोंड
				327	निजी	सिंचित	0.270	माखनलाल पिता मिलक गोंड
				328	निजी	सिंचित	0.860	जगदीश, यीशुलाल पिता मेवालाल
				330/4	निजी	सिंचित	0.040	बब्बू पिता भादू गौली

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				330/6	निजी	सिंचित	0.360	लक्ष्मण पिता बबू गौरी
				4	शासकीय	रास्ता	0.015	म०प्र० शासन
				14	शासकीय	चरनोई	0.040	म०प्र० शासन
				42	शासकीय	रास्ता	0.120	म०प्र० शासन
				63	शासकीय	चरनोई	0.220	म०प्र० शासन
				187	शासकीय	रास्ता	0.050	म०प्र० शासन
				194	शासकीय	आबादी	0.032	म०प्र० शासन
				199	शासकीय	रास्ता	0.210	म०प्र० शासन
				208	शासकीय	नाला	0.100	म०प्र० शासन
				265/2	शासकीय	चरनोई	0.410	म०प्र० शासन
				268	शासकीय	रास्ता	0.020	म०प्र० शासन
				274	शासकीय	चरनोई	0.300	म०प्र० शासन
				298	शासकीय	चरनोई	0.160	म०प्र० शासन
				311	शासकीय	रास्ता	0.020	म०प्र० शासन
				341	शासकीय	नाला	0.060	म०प्र० शासन
				योग			57.383	

[ फा. सं. भाराप्र/पीआईयू/सीएचडब्ल्यू/एलए/2010 ]

एस. एस. गुलिया, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2010

**S.O. 2835(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 955(E), dated the 26th April, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 26(B) on the stretch of land of Chhindwara Bypass Section in District Chhindwara, in the State of Madhya Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Nav Bharat”, dated the 8th July, 2010 and in “Dainik Bhaskar”, dated the 9th July, 2010, under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received from any person by the competent authority.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE								
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land of Chhindwara bypass section of NH 26(B) in District Chhindwara in the State of Madhya Pradesh.								
Serial number	Name of the district	Name of the taluk/ tehsil	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (In hectares)	Name of person intrested
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Chhindwara	1.Chhindwara	(1)Sarna	361/1	Private	Non-Irrigated	0.020	Nirmala W/o Ramkumar Thakur
				362/1	Private	Non-Irrigated	0.190	Nirmala W/o Ramkumar Thakur
				364/1	Private	Non-Irrigated	0.220	Dhaniram S/o Harichand
				364/2	Private	Non-Irrigated	0.060	Ashok kumar S/o Premdas Sahu
				364/3	Private	Irrigated	0.190	Dhaniram S/o Harichand Bhariya
				364/4	Private	Non-Irrigated	0.130	Chhidamee S/o Harichand Bhariya
				364/5	Private	Non-Irrigated	0.160	Harichand S/o Khema Bhariya
				364/6	Private	Non-Irrigated	0.100	Chhidamee S/o Harichand Bhariya
				365	Private	Non-Irrigated	0.060	Chaitusingh S/o Teku Bhariya
				385/1	Private	Irrigated	0.510	Parasram S/o khemchand Teli
				385/2	Private	Irrigated	0.140	Parasram S/o Khemchand Teli
				387	Private	Irrigated	0.080	Neelesh S/o Amritlal Shah, Sandip S/o Balbhadi Shah, Rakesh S/o Shambhu Dayal, Nand Kishor S/o Khadak Singh Sahu
				393	Private	Irrigated	0.240	Pradip, Dilip S/o Tara Chand Smt. Lakshmania Widow Tarachand Marar
				394	Private	Irrigated	0.290	Pradip, Dilip S/o Tara Chand Smt. Lakshmania Widow Tarachand Marar
				395	Private	Irrigated	0.050	Pradip, Dilip S/o Tara Chand Smt. Lakshmania Widow Tarachand Marar
				396	Private	Irrigated	0.760	Shyam kumar S/o Takechand Marar
				421/2	Private	Irrigated	0.020	Mahesh kumar S/o Bhadua Marar
				422	Private	Irrigated	0.520	Mahangi Widow Sukku, Santram, Ravi S/o Kapaslal, Smt. Kusuma Widow Kapaslal Chamar
				423	Private	Irrigated	0.560	Mahangi Widow Sukku, Santram, Ravi S/o Kapaslal, Smt. Kusuma Widow Kapaslal Chamar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				426/1	Private	Irrigated	0.010	Ramkaran S/o Sarwan Gond
				428	Private	Irrigated	0.080	Ramkaran S/o Sarwan, Khemkaran S/o Sarwan Gond
				429/1	Private	Irrigated	0.020	Ramkaran S/o Sarwan Gond
				429/2	Private	Irrigated	0.150	Khemkaran S/o Sarwan Gond
				430	Private	Non-Irrigated	0.012	Deepak S/o Amir Singh, Gayanwati Widow Raj kumar, Sudheer, Praveen S/o Raj kumar, Pramila D/o Raj kumar, Angad Singh, Manish, Sanju S/o Santosh kumar, Vinita, Anita D/o Santosh kumar, Shardabai Widow Santosh Kumar Raghuvashi
				431/1	Private	Irrigated	0.670	Smt. Punambai W/o Kamalsingh Gond
				436	Private	Irrigated	0.004	Smt. Punambai W/o Kamalsingh Gond
				437	Private	Irrigated	0.750	Pradip, Dillip S/o Tara Chand Smt. Lakshmanai Widow Tara Chand Marar
				462/1	Private	Irrigated	0.810	Deepak S/o Amir Singh Raghuvashi
				462/2	Private	Irrigated	0.360	Sukiya Widow Shankar, Salakram, Tukaram S/o Shankar, Kusum, Himmi, Anita D/o Sankar Dhobi
				462/5	Private	Irrigated	0.300	Balkaran S/o Budhelal Chamar
				463/1	Private	Irrigated	0.310	Sukiya Widow Shankar, Salakram, Tukaram S/o Shankar, Kusum, Himmi, Anita D/o Shankar Dhobi
				494	Private	Irrigated	0.280	Deepak S/o Amir Singh Raghuvashi
				496/1	Private	Irrigated	0.010	Nirpatsingh S/o Babu Raghuvashi
				496/2	Private	Irrigated	0.230	Dharamsingh S/o Babu Raghuvashi
				496/3	Private	Irrigated	0.530	Rupabai Widow Padam Singh Raghuvashi
				242	Govt.	Nala	0.100	M.P. Govt.
				245	Govt.	Rasta	0.110	M.P. Govt.
				341	Govt.	Rasta	0.050	M.P. Govt.
				460	Govt.	Nala	0.050	M.P. Govt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				483	Govt.	Rasta	0.020	M.P. Govt.
			(2) Atarwara	23/4	Private	Irrigated	0.030	Shree Ram S/o Naval Singh Ahir
				23/8	Private	Irrigated	0.160	
				23/1	Private	Irrigated	0.240	Harial, Hannulal, Dhanlal, Ghanshyam, Raghuvveer, Rajendra S/o Khub Chand, Rupwati Widow Khubchand, Diniya, Jhini, Guddo D/o khub Chand Yadav
				23/6	Private	Irrigated	0.230	Roopwati Widow Khubchand Yadav
				23/9	Private	Irrigated	0.020	Raghu Nandan S/o Hetram, Prahalad S/o Shohan Yadav
				25/1	Private	Irrigated	1.000	Majorul Akbar khan Ijhar khan S/o akram AliKha Khalida Akhtar Ajit Nayar Tanveer S/o Akram Ali Musalman
				25/2	Private	Irrigated	0.470	Israr Ahmad S/o Aslam Ali Musalman
				59	Private	Irrigated	0.080	Majorul Akbar khan Ijhar khan S/o akram AliKha Khalida Akhtar Ajit Nayar Tanveer S/o Akram Ali Musalman
				60	Private	Irrigated	0.350	Vimala D/o Govind Ram Gond
				64	Private	Irrigated	0.430	Manglu, Sadaral S/o Manak, Jhulso Widow Jangllu, Matram, Tutu S/o Jhangllu, Father Jangalu Shyama, Ramkali, Chaiti, Sushila D/o Janglu Minor Guardian Mother Jhulmo Gond
				69/1	Private	Irrigated	0.140	Heeralal S/o Udey Goli
				69/2	Private	Irrigated	0.130	Bhojelal S/o Udey Goli
				70/1	Private	Irrigated	0.050	Shekh Ajit S/o Shekh Majit Khan, Khurshid Bano, Ghaseeti D/o Shekh Majit Khan Musalman
				276/3	Private	Irrigated	0.750	Hiralal S/o Udey Goli
				276/5 276/6	Private	Irrigated	0.675	Jai kumari W/o Raghuram Singh Raghuvanshi
				296	Private	Irrigated	0.110	Tulsi Ram S/o Abeer Chand Goli
				297	Private	Irrigated	0.110	Nanho S/o Jhaura Goli
				298	Private	Irrigated	0.110	Fatelal S/o Abeer Chand Goli



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				299	Private	Irrigated	0.120	Daresh S/o Dev Chand Goli
				300/2	Private	Irrigated	0.330	Tulsi Ram S/o Abeer Chand Goli
				301	Private	Irrigated	0.610	Hari Ram, Kashi Ram S/o Hukum, Nainwati Kasheewati D/o Hukum Goli
				302/2	Private	Irrigated	0.050	Kabudari Bai W/o Kaliram Gali
				304/1	Private	Irrigated	0.110	Fatela S/o Abeer Chand Goli
				320/4	Private	Irrigated	0.320	Pramila W/o P.D. Chandak
				320/3	Private	Irrigated	0.640	Ramji S/o Shobh Ram Leela W/o Shobh Ram Kalar
				320/5	Private	Irrigated	0.270	Maluk Chand S/o Preetam Kalar
				20	Govt.	Pahad	0.410	M.P. Govt.
				21	Govt.	Charnoi	0.280	M.P. Govt.
				26/2 23/5 25/3	Govt.	Nahar	0.180	M.P. Govt.
				34	Govt.	Rasta	0.035	M.P. Govt.
				46/2	Govt.	Nala	0.080	M.P. Govt.
				61	Govt.	Charnoi	0.090	M.P. Govt.
				63	Govt.	Rasta	0.210	M.P. Govt.
				65	Govt.	Nahar	0.080	M.P. Govt.
				66	Govt.	Charnoi	0.050	M.P. Govt.
				270/1-3	Govt.	Charnoi	0.070	M.P. Govt.
				277	Govt.	Charnoi	0.170	M.P. Govt.
				284	Govt.	Nahar	0.060	M.P. Govt.
				323/2	Govt.	Rasta	0.170	M.P. Govt.
			(3) Malhanwara	14/1	Private	Non-Irrigated	0.500	Rataniya bai W/o Bhaddu Kalar
				22/1	Private	Irrigated	0.330	Samni Widow Jhheetu Lal Krishnabai Aashabai d/o Jhheetu Ahir
				23	Private	Irrigated	0.385	Ratan s/o Basodi Bharia
				24/1	Private	Non-Irrigated	0.090	Kamlesh minor S/o Omkar, Omkar S/o Bhaddu kalar
				24/2	Private	Non-Irrigated	0.090	Kanhaiya s/o Sukh Ram Ahir
				24/3	Private	Non-Irrigated	0.120	Omkar S/o Bhaddu Kalar
				28	Private	Irrigated	0.020	Ratan S/o Basodi Bharia
				31	Private	Non-Irrigated	0.364	Anand Kumar S/o Naval Kisor Rathi
				39/1	Private	Non-Irrigated	0.080	Puna Ram S/o Ganesh Kalar

4538 5610-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				39/2	Private	Irrigated	0.089	Shree Ram S/o Ganesh Kalar
				39/4	Private	Irrigated	0.295	
				39/3	Private	Irrigated	0.032	Dindayal S/o Ganesh Kalar
				39/11	Private	Irrigated	0.185	
				39/7	Private	Irrigated	0.222	Somvati Bai W/o Puna Ram Kalar
				39/9	Private	Irrigated	0.180	Puna Ram S/o Ganesh Kalar
				40	Private	Non-Irrigated	0.120	Chhitiya, Sudhiya Widow Jhhanku, Sukhdeo, Sahdeo, Jaideo, Baldeo S/o Jhanku, Sarja, Chilem, Gayatri, Ruksana D/o Jhanku Ahir
				41	Private	Non-Irrigated	0.400	Bhuria Widow anko, Santo, Manso D/o Annlu Bharia
				51	Private	Non-Irrigated	0.050	Jagdish S/o Sewak Ram Mahore
				52	Private	Non-Irrigated	0.170	Chhitiya, Sudhiya Widow Jhhanku, Sukhdeo, Sahdeo, Jaideo, Baldeo S/o Jhanku, Sarja, Chilem, Gayatri, Ruksana, D/o Jhanku Ahir
				56/1	Private	Irrigated	0.101	Ajab Singh Jai Singh Sarup singh Kewal singh s/o Mitthu Smt.Dulia Widow Mitthu Sukhee Widow duby Ahir
				56/2	Private	Non-Irrigated	0.270	Dilip kumar S/o Sewak Ram Kalar
				61	Private	Non-Irrigated	0.425	Sukhlal S/o Sumera Kachara Kura D/o Fatte Ahir
				269/1	Private	Non-Irrigated	0.200	Swarup, Satish, M. Father Lakshaman, Swarupa M. D/o Lakshman Gardian Dada Mehatar S/o Munnilal Bharia
				274/1	Private	Non-Irrigated	0.100	Indarwati Widow Jhheeno, Murari, Asadhu, Santosh, S/o Jhheeno, Sumantra Widow Jhheeno, Ramdayal, Deendayal, Bhoje S/o Piramu Ahir
				274/2	Private	Non-Irrigated	0.180	Ramdayal S/o Piramu Gundera Ahir
				274/3	Private	Non-Irrigated	0.270	Deendyal S/o Piramu
				274/4	Private	Non-Irrigated	0.330	Bhojelal S/o Piramu Gundera Ahir

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				278/1	Private	Non-Irrigated	0.250	Indarwati Widow Jhheeno, Murari, Asadhu, Santosh, S/o Jhheeno, Sumantra Widow Jhheeno, Ram dayal, Deendayal, Bhoje S/o Piramu Ahir
				279/1	Private	Non-Irrigated	0.110	Dimak s/o Himmat kalar
				280/1	Private	Irrigated	0.300	Raghuveer s/o Bohana Gond
				280/2	Private	Irrigated	0.250	Kariya s/o Maya ram Gond
				283	Private	Irrigated	0.080	Siyabai D/o Chatar lai Gond
				320	Private	Irrigated	0.800	Foolchand, Moolchand Nanhelal, Charanlal S/o Khimman Ahir
				321	Private	Irrigated	0.140	Foolchand, Moolchand Nanhelal, Charanlal S/o Khimman Ahir
				322/1	Govt.	Pahad Chattan	0.250	M.P. Govt.
				322/2	Private	Pahad Chattan	0.100	M.P. Govt.
				323/1	Private	Irrigated	0.500	Bhanu Bai Widow Shekhlal Gond
				323/2	Private	Non-Irrigated	0.060	Rivansha S/o Shekhlal Gond
				323/3	Private	Non-Irrigated	0.100	Ramsha S/o Shekhlal Gond
				323/4	Private	Non-Irrigated	0.030	Balwansa S/o Shekhlal Gond
				327/2	Private	Irrigated	0.370	Dimak Chand S/o Deendyal kalar
				327/3	Private	Irrigated	0.460	Anekwati Widow Puna Ram, Champa Lal S/o Puna Ram, Dulari, Gayatri D/o Puna Ram, Mohania Widow Pahalwan, Santosh, Deepak S/o Pahalwan, Sarala, Suneeta D/o Pahalwan, Santwati, Rewati Bai D/o Bhuvan Lal Tekchand S/o Bhuvan Lal Kalar
				330	Private	Irrigated	1.000	Jhhamak S/o Sure Singh Smt. Dulli Widow Sure Singh Gond
				331/2	Private	Non-Irrigated	0.230	Mahesh S/o Balkishan Ahir
				331/3	Private	Non-Irrigated	0.040	Rajkumar, Gudda S/o Raghunath Mehara
				25	Govt.	Rasta	0.070	M.P. Govt.
				29	Govt.	Charnoi	0.243	M.P. Govt.
				33	Govt.	Rasta	0.050	M.P. Govt.
				83	Govt.	Charnoi	0.070	M.P. Govt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				281	Govt.	Pahad	1.060	M.P. Govt.
				285	Govt.	Nala	0.030	M.P. Govt.
				331/1	Govt.	Pahad	0.100	M.P. Govt.
				360	Govt.	Rasta	0.010	M.P. Govt.
			(4)Manegaon	340	Private	Non-Irrigated	0.075	Murlimanohar S/o Rameshwardayal Verma (Shaskiya Pattedar Nontransfarebal)
				341/1	Private	Non-Irrigated	0.170	Naresh, Ravi, Sanjay S/o Balram, Rampyari, Widow Balram, Baldev S/o Garjan, Tanibai, Brijvati, Anasvati, Devibai, Simwati D/o Garjan, Nukhiya Widow Garjan
				341/2	Private	Non-Irrigated	0.175	Ramdas S/o Sirju Gond
				341/3	Private	Non-Irrigated	0.200	Surjan S/o Jethu Gond
				341/4	Private	Non-Irrigated	0.175	Adhar, Adlu S/o Durjan Gond
				342	Private	Non-Irrigated	0.693	Jhadulal S/o Bisan Gond
				343	Private	Non-Irrigated	0.085	Murlimanohar S/o Rameshwardayal Verma (Shaskiya Pattedar Nontransfarebal)
				344/1	Private	Irrigated	0.420	Mithaniya Widow Bhaddu, Pusu, Ramsing S/o Bhaddu, Samaniya, Rampatiya D/o Bhaddu
				344/2	Private	Irrigated	0.550	Parvati, Ramkali, Widow Bhaglal, Bisram, Dubelal, Ruplal S/o Bhaglal, Sipatiya, Dhupvati D/o Bhagwan Gond
		2.Mohkhed	(1) Salimeta	1/1	Private	Irrigated	0.140	Narayan S/o Bhodu Kunbi
				2/1	Private	Irrigated	0.500	Sona Widow Pilaji, Prabhakar, Diwakar, S/o Shyam Rao, Savita, Rekha D/o Shyam Rao, Suman Widow Shyam Rao, Susila, Chandra, Satyabhama, Kanchana, Nitu Minor D/o Fajit, Tulsi, Nilesh Minor D/o Fajit Guardian aaji sona, Sirpat, Baburao S/o Nathan, Yamuna, Aanji Kosa, Reshmi, Sewanti D/o Aadya, Sakun Widow Ganpat Mahar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3/1	Private	Irrigated	0.150	Krishna Rao S/o Gangaji Kunbi
				3/2	Private	Non-Irrigated	0.010	Maroti Rao S/o Gangaji Kunbi
				11/1	Private	Irrigated	1.300	Babu Rao, S/o Bhaiyaji Kunbi
				13/1	Private	Irrigated	0.090	Shesh Rao S/o Prahlad Kunbi
				13/2	Private	Irrigated	0.650	Bhaiyaji S/o Gamaji Kunbi
				15/1	Private	Non-Irrigated	0.260	Anubai Widow Shayamrao, Lakkhu S/o Shayamrao, Sandhya D/o Shayamrao
				15/2	Private	Non-Irrigated	0.180	Ballu S/o Shyam Rao, Anu Widow Shyamrao, Sandhya D/o Shyam Rao Kunbi
				30	Private	Non-Irrigated	0.090	Kasu W/o Baburao Kunbi
				31	Private	Irrigated	0.470	Kasu W/o Baburao Kunbi
				61	Private	Irrigated	0.220	Gulab Rao S/o Maroti Kunbi
				64	Private	Non-Irrigated	0.040	Govind Rao, Gulab Rao S/o Chepa Kunbi
				68	Private	Non-Irrigated	0.130	Govind Rao, Gulab Rao S/o Chapa Kunbi
				69	Private	Irrigated	0.830	Govind Rao, Gulab Rao S/o Chapa Kunbi
				115/1	Private	Irrigated	0.250	Kusum W/o Panjab Rao Kunbi
				115/3	Private	Irrigated	0.280	Ajayab Rao S/o Bhauji Kunbi
				151	Private	Non-Irrigated	0.210	Shesha Rao, Shyam Rao, Ratnakar, Kamlakar S/o Daulat Aashi Widow Daulat Kunbi
				152	Private	Irrigated	0.320	Needa S/o Jagannath Kunbi
				153/1	Private	Irrigated	0.050	Kundlik, Deena S/o Maroti Rao, Sarla, Kusum Widow Namdev, Ashok, Raju Manoj S/o Namdev Nitin Minor S/o Namdev, Mannu, Neelu Minor D/o Namdev Gardian Mother Kunbi
				153/2	Private	Irrigated	0.480	Jagdish S/o Gamaji Kunbi
				154	Private	Irrigated	0.250	Sesh Rao, Shyam Rao, Ratnakar, Kamlakar S/o Daulat, Aashi Widow Daulat Kunabi
				156	Private	Irrigated	0.280	Ramji, Babu Rao S/o Amaratya Kunabi
				157	Private	Irrigated	0.350	Gulab Rao S/o Maroti Kunbi
				158/1	Private	Irrigated	0.100	Mahadev S/o Nago Rao Kunbi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				159/1-2	Private	Irrigated	0.304	Bhaurao S/o Dinyaaji Kunbi
				185/1	Private	Irrigated	0.510	Lakchaman Babu S/o Manaji Kunbi
				185/2	Private	Irrigated	0.060	Jagnnath S/o Ithoba Kunbi
				186/1	Private	Irrigated	0.280	Babu Rao S/o Baji Rao Kunbi
				186/2	Private	Irrigated	0.750	Hiraji S/o Baji Rao Kunbi
				187/1	Private	Irrigated	0.680	Madhukar S/o Raghunath Kunbi
				187/5	Private	Non-Irrigated	0.080	Alka W/o Maroti Kunbi
				189/2	Private	Non-Irrigated	0.050	Mukesh S/o Gangaji Kunbi
				72	Private	Non-Irrigated	0.030	Gulab Rao S/o Maroti Rao Kunbi
				2/2	Govt.	Nahar	0.020	M.P. Govt.
				11/2 11/3	Govt.	Nahar	0.200	M.P. Govt.
				14	Govt.	Pahad	0.340	M.P. Govt.
				25	Govt.	Rasta	0.060	M.P. Govt.
				60	Govt.	Rasta	0.040	M.P. Govt.
				62	Govt.	Bade Jhad ka jangal	0.230	M.P. Govt.
				63	Govt.	Bade Jhad ka jangal	0.016	M.P. Govt.
				66	Govt.	Bade Jhad ka jangal	0.030	M.P. Govt.
				112	Govt.	Bade Jhad ka jangal	0.065	M.P. Govt.
				113	Govt.	Bade Jhad ka jangal	0.030	M.P. Govt.
				114	Govt.	Bade Jhad ka jangal	0.016	M.P. Govt.
				159/3	Govt.	Nahar	0.030	M.P. Govt.
			(2)Khunajhir Kala	1	Private	Irrigated	0.015	Kodya S/o Miyan, Kanta D/o Miyan Mahar
				8	Private	Non-Irrigated	0.060	Kodya S/o Miyan, Kanta D/o Miyan Mahar
				9	Private	Non-Irrigated	0.001	Ambika W/o Sakaram Gond
				10	Private	Non-Irrigated	0.280	Ambika W/o Sakaram Gond
				11	Private	Irrigated	0.060	Shanta Bai W/o Sukhdev Mahar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				12	Private	Irrigated	0.010	Jhimiya Widow Vipatal, Jaidev, Rajkumar S/o Vipatal Mahar
				15/1,2	Private	Irrigated	0.170	Manta Bai W/o Sukhdev, Mahadev S/o Kishan Mahar
				16	Private	Irrigated	0.260	Tulsi S/o Parsadi Mahar
				17/1	Private	Non-Irrigated	0.085	Jhimiya Widow Vipatal, Jaidev, Rajkumar S/o Vipatal Mahar
				19	Private	Non-Irrigated	0.080	Rajesh S/o Kodyaji, Jamna Bai W/o Chepaji Kunbi
				44	Private	Irrigated	0.050	Kodya S/o Miyan, Kanta D/o Miyan Mahar
				45/1,2	Private	Non-Irrigated	0.120	Kusumlata W/o D.K. Pandey Brahman
				46	Private	Non-Irrigated	0.050	Kusumlata W/o D.K. Pandey Brahman
				47/1	Private	Irrigated	0.170	Ganpat S/o Tukaram Kunbi
				47/2	Private	Irrigated	0.130	Susheela Widow Anandrao, Manohar, Mukind Minor S/o Anandrao, Durga Minor D/o Anandrao, Gardian Mother Susheela
				48	Private	Non-Irrigated	0.270	Kusumlata W/o D.K. Pandey Brahman
				49	Private	Non-Irrigated	0.040	Kusumlata W/o D.K. Pandey Brahman
				50/1	Private	Irrigated	0.040	Chepa S/o Navloo Kunbi
				61	Private	Non-Irrigated	0.650	Kusumlata W/o D.K. Pandey Brahman
				65/1	Private	Non-Irrigated	0.100	Govindrao S/o Ithova Kunbi
				65/2	Private	Non-Irrigated	0.165	Nirupama W/o Shishir Chandekar
				65/3	Private	Non-Irrigated	0.150	Nirupama W/o Shishir Chandekar
				69/2	Private	Non-Irrigated	0.080	Dhanlal S/o Rama, Shekhar S/o Dubelal Gond
				178	Private	Irrigated	0.065	Shyamrao S/o Heeraji
				179/1,2,3	Private	Irrigated	0.385	Baburao S/o Heeraji, Shyamrao S/o Heeraji
				180/1	Private	Irrigated	0.100	Janki Bai Widow Pandari, Sheshrao, Ajabrao, Shankarao S/o Pandari, Kamla, Kusum, Kausu Bai D/o Pandari Kunbi
				180/2	Private	Irrigated	0.085	Sheshrao S/o Pandari Kunbi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				180/3	Private	Irrigated	0.020	Kuldeep Mionr, Bali S/o Sheshrao Karade
				181/1	Private	Non-Irrigated	0.081	Baburao S/o Heeraji, Shyamrao S/o Heeraji
				181/2	Private	Non-Irrigated	0.020	Mukta Bai W/o Jaideo Kunbi
				182	Private	Non-Irrigated	0.050	Sakarchand, Jaideo S/o Barkya, Narbad D/o Barkya, Baburao, Shyamrao S/o Heeraji, Sheshrao, Ajabrao, Shankarrao S/o Pandari, Kamla, Kusum, Kausu D/o Pandari, Janki W/o Pandari
				191/1,2	Private	Non-Irrigated	0.015	KolhuSing S/o Mouji, Sakro Widow Mouji, Shivram S/o Mouji, Sakro W/o Mouji Gond
				192	Private	Non-Irrigated	0.040	Kundlik S/o Budhyaji, Prabhakar, Diwakar Minor Gardian S/o Kundlik Kunbi
				193	Private	Non-Irrigated	0.060	Govind, Janrao, Bhaurao S/o Ithoba, Durpat Widow Ithoba Kunbi
				195	Private	Non-Irrigated	0.035	Laxman, Namdeo, Sukhdeo, Hemant, Daulat, Ramu S/o Jago, Suman D/o Jago Kunbi
				196/1	Private	Non-Irrigated	0.038	Ganpat S/o Tukaram Kunbi
				196/2	Private	Non-Irrigated	0.030	Susheela Widow Anandrao, Manohar, Mukind Minor S/o Anandrao, Durga Minor D/o Anandrao, Gardian Mother Susheela Widow Anandrao
				197	Private	Non-Irrigated	0.040	Bakaram S/o Sadashiv Kunbi
				198	Private	Irrigated	0.525	Nagorao, Namdeo S/o Bakaram Kunbi
				200/1	Private	Irrigated	0.010	Ganpat S/o Tukaram Kunbi
				200/2	Private	Irrigated	0.140	Susheela Widow Anandrao, Manohar, Mukind Minor S/o Anandrao, Durga Minor D/o Anandrao, Gardian Mother Susheela Widow Anandrao
				201/1	Private	Irrigated	0.150	Kundlik S/o Budhyaji Kunbi



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				201/2	Private	Irrigated	0.120	Prabhakar, Diwaker Minor S/o Kundlik Gardian Father Kundlik Kunbi
				201/3	Private	Irrigated	0.135	Kaushalya Widow Narayan, Rameshwar, Suresh S/o Narayan Kunbi
				202	Private	Irrigated	0.020	Raju, Kiresh S/o Ithoba Mahar
				272/5	Private	Non- Irrigated	0.010	Hemant S/o Jago
				272/6	Private	Non- Irrigated	0.060	Nama S/o Jago
				273/1	Private	Non- Irrigated	0.450	Itha Bai Widow Khanderao, Namdeo, Jaideo, Dileep S/o Khanderao, Kaushalya, Sewanti, Jyoti D/o Khanderao
				273/2	Private	Non- Irrigated	0.200	Daulat, Ramrao S/o Jagoji Kunbi
				273/3	Private	Non- Irrigated	0.010	Vinayak, Kamleshwar, Rajesh S/o Gadiram, Ganga Bai Widow Gadiram Kunbi
				275	Private	Non- Irrigated	0.170	Yashlal, Kodulal, Yeshulal S/o Ramlal, Ramprasad, Ramda, Shyamji, Damu S/o Amarlal, Ammo Widow Amarlal Gond
				277	Private	Irrigated	0.430	Ganga W/o Gadiram Kunbi
				278	Private	Non- Irrigated	0.100	Shanilal S/o Biran, Rameshi Widow Biran Gond
				279	Private	Non- Irrigated	0.240	Shanilal S/o Biran, Rameshi Widow Biran Gond
				280	Private	Non- Irrigated	0.005	Shanilal S/o Biran, Rameshi Widow Biran Gond
				283/1	Private	Non- Irrigated	0.140	Mangla D/o Chaitu, Bhagosi Widow Chaitu Gond
				283/2	Private	Non- Irrigated	0.060	Hiriya W/o Premial Gond
				299/3	Private	Non- Irrigated	0.050	Manku S/o Roopchand Ahir
				308/2	Private	Irrigated	0.120	Devrao S/o Hari
				309/1	Private	Irrigated	0.600	Dulari Bai W/o Mehatu Chamar
				309/2	Private	Irrigated	0.260	Mehatu S/o Sukha Chamar
				312/2	Private	Non- Irrigated	0.010	Mehatu S/o Sukha Chamar
				313	Private	Irrigated	0.470	Ganpati W/o Hari, Devrao S/o Hari Kunbi
				314	Private	Irrigated	0.010	Ganpati W/o Hari Kunbi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				325/1	Private	Irrigated	0.180	Gouri Widow Sutelal Gouli
				325/15	Private	Irrigated	0.070	Rama S/o Sutelal Gouli
				326	Private	Irrigated	0.050	Krishn Kumar S/o Makhanlal Gond
				327	Private	Irrigated	0.270	Makhanlal S/o Milak Gond
				328	Private	Irrigated	0.860	Jagdish Ishulal S/o Mewalal
				330/4	Private	Irrigated	0.040	Babbu S/o Bhadu Gouli
				330/6	Private	Irrigated	0.360	Laxman S/o Babbu Gouli
				4	Govt.	Rasta	0.015	M.P. Govt.
				14	Govt.	Charnoi	0.040	M.P. Govt.
				42	Govt.	Rasta	0.120	M.P. Govt.
				63	Govt.	Charnoi	0.220	M.P. Govt.
				187	Govt.	Rasta	0.050	M.P. Govt.
				194	Govt.	Aabadi	0.032	M.P. Govt.
				199	Govt.	Rasta	0.210	M.P. Govt.
				208	Govt.	Nala	0.100	M.P. Govt.
				265/2	Govt.	Charnoi	0.410	M.P. Govt.
				268	Govt.	Rasta	0.020	M.P. Govt.
				274	Govt.	Charnoi	0.300	M.P. Govt.
				298	Govt.	Charnoi	0.160	M.P. Govt.
				311	Govt.	Rasta	0.020	M.P. Govt.
				341	Govt.	Nala	0.060	M.P. Govt.
				<b>Total</b>			<b>57.383</b>	

[F. No. NHA/PIU/CHW/LA/2010]

S. S. GULIA, Director